



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 कार्तिक 1937 (श०)

(सं० पटना 1276) पटना, बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर 2015

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

31 मार्च 2015

सं० प्र०२/विविध बैठक-०७/२०१४-०२—उद्योग विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० ३०१ दिनांक २६.०२.२०१४ के अनुसार विद्युत अनुदान राशि का लाभ उन्हीं करघा बुनकरों को दिया जाना है, जिन्हें बुनाई हेतु बिजली की आपूर्ति वास्तविक रूप में की गयी तथा विगत विद्युत विपन्न का भुगतान किया गया है। विद्युत करघा इकाईयों का अनुदान हेतु पंजीकरण तथा सत्यापन विद्युत करघा इकाईयों/बुनकरों द्वारा सही मानक में वस्त्रों के प्रकार मासिक उत्पादन, हस्तकरघा उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण अधिनियम १९८५ के प्रावधान एवं अन्य सरकारी निर्देशों का पालन किए जाने, पावर लूम एवं घरेलू विद्युत खपत के लिए अलग-अलग मीटर लगाए जाने, विद्युत करघा इकाईयों जहाँ मीटर नहीं लगा है उसमें अभियान चलाकर मीटर लगाने, विद्युत करघा इकाईयों का त्रैमासिक सत्यापन करने आदि से संबंधित चेक एवं बैलेंस रखने हेतु एक मैकेनिज्म तैयार करने हेतु निम्न रूप से समिति का गठन किया जाता है:—

- (१) संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता, डिस्ट्रीब्यूशन।
- (२) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।
- (३) जिला पदाधिकारी द्वारा नामित वरीय उप समाहर्ता।
- (४) बुनकर महासंघ के पद धारक अध्यक्ष अथवा सचिव।

२. उक्त समिति के संयोजक महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र होंगे।

३. समिति उपरोक्त बिन्दुओं पर चेक एवं बैलेंस रखेगी तथा विद्युत करघा इकाईयों बुनकरों को प्रमाणित/सत्यापन करेगी ताकि सही विद्युत करघा बुनकरों को अनुदान की राशि प्राप्त हो सके तथा उनके द्वारा विद्युत

करघा इकाईयों एवं घरेलू उपयोग हेतु अलग-अलग मीटर का व्यवहार किया जा सके, जिसके आधार पर अनुदान की राशि का भुगतान उन्हें मिल सके ।

4. इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1276-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>